



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2007/पौष 15, 1928

No. 6]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2007/PAUSA 15, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2007

सं. 2/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि.10(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब वह भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए छूट देती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर, मूल्य के अनुसार दर है।

सारणी

क्र. सं.	शीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801 11 00	किसी वित्तीय वर्ष में सूखे नारियल के पांच सौ मैट्रिक टन माल के कुल आयात पर	30 प्रतिशत	1
2.	0904	किसी वित्तीय वर्ष में काली मिर्च के ढाई हजार मैट्रिक टन माल के कुल आयात पर	कुछ नहीं	1 और 2
3.	1516, 1517 या 1518	किसी वित्तीय वर्ष में वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग और मार्गरीन के दो लाख पचास हजार मैट्रिक टन माल के कुल आयात पर	कुछ नहीं	1 और 2

उपाबंध	
शर्त सं.	शर्त
1.	आयातकर्ता, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2000-सीमाशुल्क (एन.टी), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित सीमाशुल्क टैरिफ (श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी गणतंत्र और भारत गणतंत्र के बीच मुक्त व्यापार करार के अधीन अवधारण) नियम, 2000 के अनुसार यथास्थिति उक्त सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह प्रमाणित कि वह माल जिसकी बाबत इस छूट के फायदे का दावा किया गया है श्रीलंका मूल भी है।
2.	1 अप्रैल, 2006 से अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक जितनी भी मात्रा में भारत में आयात किया गया है उसकी गिनती वित्तीय वर्ष 2006-07 के कुल आयात में भी की जाएगी।

[फा. सं. 354/77/1998-टीआरयू (पार्ट I)]

एस. बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2007

No. 2/2007-CUSTOMS

G.S.R. 10(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table given below and falling under the Heading, or Tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of customs leviable thereon, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, specified in the Annexure to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table.

Explanation :—For the purposes of this notification, the rate specified in column (4) is *ad valorem* rate.

TABLE

S.No.	Heading or tariff item	Description of goods	Rate	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801 11 00	Desiccated Coconut up to an aggregate quantity of five hundred metric tonnes of total imports of such goods in a financial year.	30%	1
2.	0904	Pepper up to an aggregate quantity of two thousand five hundred metric tonnes of total imports of such goods in a financial year.	Nil	1 and 2
3.	1516, 1517 or 1518	Vanaspati, bakery shortening and margarine up to an aggregate quantity of two lakh and fifty thousand metric tonnes of total imports of such goods in a financial year	Nil	1 and 2

ANNEXURE

Sl. No.	Conditions
1.	The importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods in respect of which the benefit of this exemption is claimed are of the origin of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in accordance with the Customs Tariff (Determination of Origin under the Free Trade Agreement between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Republic of India) Rules, 2000 published in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 19/2000-Customs (N.T.), dated the 1st March, 2000.

Sl. No.	Conditions
2	The quantum of imports, during the period from the 1st day of April, 2006 to the date of issue of this notification, shall be included for the purposes of computing the aggregate quantity of imports into India, for the financial year 2006-07.

[F. No. 354/77/1998- TRU(Pt. I)]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2007

सं. 3/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि.11(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2000-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण में, सा.का.नि. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, सूची 5 में खण्ड 1(क) से संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(अ) सूची 2 और 3 तथा अधिसूचना सं. 60/2000-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2000 तथा अधिसूचना सं. 2/2007-सीमाशुल्क, तारीख 5 जनवरी, 2007 में वर्णित माल”

[फा. सं. 354/77/1998-टीआरयू (पार्ट 1)]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2000-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 सा.का.नि. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 128/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 सा.का.नि. 789(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2007

No. 3/2007-CUSTOMS

G.S.R. 11(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments to in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2000-Customs, dated the 1st March, 2000, number G.S.R. 178 (E), dated 1st March, 2000, namely: —

In the said notification, in the TABLE, in List 5, for clause 1(a) and entries thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(a) goods mentioned in List 2 and 3 and in Notifications No. 60/2000-Customs, dated the 12th May, 2000 and 2/2007-Customs, dated the 5th January, 2007”.

[F. No. 354/77/1998- TRU(Pt. I)]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 26/2000-Customs, dated 1st March, 2000 was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 178 (E) dated the 1st March, 2000 and was last amended by Notification No. 128/2006-Customs dated 30th December, 2006 and was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 789 (E), dated the 30th December, 2006.